



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80]  
No. 80]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 1983/फाल्गुण 19, 1984  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 1983/PHALGUNA 19, 1984

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली. 24 फरवरी, 1983

सां० का० नि० 254 (अ)—केंद्रीय सरकार, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की छठी अनुसूची के पैरा 6 के उप पैरा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण के परामर्श करने के पश्चात यह अधिसूचना करती है कि अनुसूचिधारी अवक्षयण के लिए एसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् :—

1. अनुसूचिधारियों द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना :—

(क) अनुसूचिधारी अवक्षयण के लिए—

- (1) ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो यदि समस्त विहित अवधि के दौरान प्रति वर्ष अपास्त कर दी जाती है और जिसका 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संवय, किया जाता है, तो विहित अवधि की समाप्ति पर, उपक्रम की बहियों में पहले बट्टे खाते डाली गई अथवा अपास्त कर दी गई राशि को हिसाब में लेने के पश्चात अपास्त की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर राशि हो जाएगी। मचित अनिश्चय पर वार्षिक ब्याज, राजस्व में से और वार्षिक वृद्धि निक्षेप में से खर्च के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, या

- (2) किसी राशि की व्यवस्था की जाएगी, जो विहित अवधि से, आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को स्वभाजित करके निकलती है;

परन्तु यदि किसी अनुसूचिधारी ने, विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का 23) के प्रारम्भ के पूर्व किसी विशिष्ट पद्धति का विकल्प से लिया है, तो वह ऐसी पद्धति का अनुसरण करता रहेगा।

(ख) यदि कोई नियत आस्ति चलन, अपर्याप्तता, अतिरिक्त या अन्य किसी कारणवश उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रह जाती है ऐसी अनुसूचिधारी की बहियों में यह वर्णित किया जाएगा कि अब वह प्रयुक्त नहीं होती है और उसकी बाबत और अवक्षयण राजस्व मुद्दे प्रभार के रूप में अज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि उपक्रम की बहियों में कोई आस्ति, उसकी मूल लागत के 10 प्रतिशत या उससे कम तक दामित कर दी गई है, तो उस आस्ति की बाबत और अवक्षयण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(घ) अवक्षयण की बकाया, विहित अवधि की शेष अवधि पर समीकृत सदायो द्वारा बट्टे खाते डाली जा सकेगी।

2. अवक्षयण की सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि—

ये सिद्धान्त क्रमशः अप्रैल, 1983 के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और मार्च, 1984 के 31वें दिन का समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के अवक्षयण के सारण को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में “विहित अवधि” से, इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में, ऐसी आस्ति के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि, जो प्रत्येक दशा में, उस लेखा वर्ष के ठीक अगले वर्ष से आरम्भ होगी, जिसमें कारबार में उपयोग के लिए विशिष्ट आस्ति उपलब्ध हुई थी, अभिप्रेत है।

### अनुसूची

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
क. पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि	अनन्त काल
ख. पट्टे के अधीन धारित भूमि—	
(क) भूमि में विनिधान के लिए	पट्टे की अवधि, या पट्टे के समनुवेशन पर शेष अवधि
(ख) स्थल की सफाई करने की लागत के लिए।	स्थल की सफाई करने की तारीख को पट्टे की शेष अवधि
ग. नई क्रय की गई आस्तियाँ—	
(क) जनन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी जिसके अन्तर्गत संयंत्र आधार भी है :	
(1) जल-विद्युत	पैंतीस
(2) वाष्प विद्युत	पच्चीस
(3) जीजल विद्युत	पन्द्रह
(ख) शीतजन टावर और परिसंचारी जल पद्धति	तीस
(ग) द्रवचालित संकर्म को जल विद्युत पद्धति का भाग है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—	
(1) बांध अधिष्ठापन मार्ग, अधिकांश और एक मी नहरें, प्रद्वारित कंक्रीट अवनालिकाएं और दाबलधिकां	
(2) प्रवर्तित कंक्रीट पाइपलाइनें और मशीन टैंक, इस्पात पाइपलाइनें, स्लुइस गैस, इस्पात मोहिमें टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व और अन्य द्रवचालित संकर्म	चाबीस
(घ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं :—	
(1) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष	पचास
(2) जिसमें ताप विद्युत जनन संयंत्र है	तीस
(3) जिसमें जल विद्युत जनन संयंत्र है	पैंतीस
(4) अस्थाई निर्माण जैसे काष्ठ संरचना	पांच
(5) कच्चे माल से भिन्न	एक सौ
(6) अन्य	पचास
(ङ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कियोस्क उप स्टेशन उपस्कर और अन्य नियत माधिल (जिसके अन्तर्गत संयंत्र आधार भी है)	
(1) 100 किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर जिसके अन्तर्गत आधार भी है)	पैंतीस
(2) अन्य	पच्चीस

1	2
(च) स्वीचगियर जिसके अन्तर्गत केवल कनेक्शन भी है तड़ित प्रगाही—	
(1) स्टेशन टाइप	तीस
(2) पोल टाइप	पन्द्रह
(3) तुल्यकारी संघारित्र	पैंतीस
(छ) बैटरियां	दस
(ज) (1) भूमिगत केबलें जिनके अंतर्संधि वाक्स और वियोजन बाक्स भी हैं।	चाबीस
(2) केबल डकट प्रणाली	साठ
(झ) उपरीली लाइनें, जिसके अन्तर्गत टैंक भी है :—	
(1) 66 किलोवाट से उच्चतर नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाले संविरचित इस्पात टैंकों पर लाइनें।	
(2) 13.2 किलोवाट से उच्चतर नामीय किन्तु 66 किलोवाट से अधिक नामीय वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली इस्पात टैंकों पर लाइनें	
(3) इस्पात या प्रवर्तित कंक्रीट टैंकों पर लाइनें	पच्चीस
(4) अभिक्रियित काष्ठ टैंकों पर लाइनें	बीस
(झ) मीटर	पन्द्रह
(ट) स्वनोदित यान	सात
(ठ) स्थैतिक मशीन औजार	बीस
(ड) वातानुकूल संयंत्र	
1. स्थैतिक	पन्द्रह
2. मुबाहय	सात
(ड) 1. कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग	बीस
2. कार्यालय उपस्कर	दस
3. आम्सरिकतर लगाना—जिसके अन्तर्गत फिटिंग और साधित्र भी हैं	पन्द्रह
4. सड़क प्रकाश फिटिंग	पन्द्रह
(ण) भाड़े पर लिए गए साधित्र :—	
(1) मोटरों से भिन्न	सात
(2) मोटरें	बीस
(त) संघार उपस्कर :—	
(1) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति बाहक पद्धति	पन्द्रह
(2) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	बीस

पूर्व प्रयुक्त क्रय की गई आस्तियां और ऐसी आस्तियां जिनके लिए इस अनुसूची में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।

ऐसी युक्ति युक्त अवधि, जो राज्य सरकार, स्वामी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनके समय और दशा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में अवधारित करें।

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th February, 1983

**G. S. R. 254(E):**—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph(a) of paragraph VI of the Sixth Schedule to the Electricity (Supply) Act, 1948, (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the licensee shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely:—

1. Providing of depreciation by licensee—(a) the licensee shall provide for depreciation—

- (i) Such an amount as would, if set aside annually throughout the prescribed period and accumulated at compound interest at 4 per cent per annum, produce by the end of the prescribed period an amount equal to ninety per cent of the original cost of the asset of after taking into account the sums already written off or set aside in the books of the undertaking. Annual interest on the accumulated balance will be allowed as an expense from revenue as well as the annual incremental deposit, or
- (ii) such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the asset by the prescribed period.

Provided, however that if a licensee has already opted for a particular method before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1978 (23 of 1978), he shall continue to follow the same method.

- (b) Where any fixed asset ceases to be available for use through obsolescence, inadequacy, superfluity or for any other reason, it shall be described in the books of the licensee as no longer in use and no further depreciation in respect thereof shall be allowed as a charge against revenue.
- (c) When any asset has been written down in the books of the undertaking to 10 per cent or less of its original cost, no further depreciation shall be allowed in respect of that asset.
- (d) Areas of depreciation may be written off by equated payments over the remainder of the prescribed period.

2. Period of application of the principles of depreciation --

These principles shall apply to the charging of depreciation for the accounting year commencing on the 1st day of April, 1983 and ending on the 31st day of March, 1984.

**Explanation:—** In this notification "prescribed period" means—In respect of assets specified in the schedule to this notification, the number of years or period specified therein, in relation to such asset running in each case from the beginning of the year of account next following that in which the particular asset became available for use in the business.

## SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
1	2
A. Land owned under full title	Infinity
B. Land held under lease—	
(a) for investment in the land	The period of the lease, or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.

(b) for cost of clearing site      The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site.

## C. Assets purchased new—

- (a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—
  - (i) hydro-electric      Thirty-five
  - (ii) steam-electric      Twenty-five
  - (iii) diesel-electric      Fifteen
- (b) Cooling towers and circulating water systems.      Thirty
- (c) Hydraulic works forming part of a hydro electric system including —
  - (i) dams, spillways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and siphons.      One hundred
  - (ii) reinforced concrete pipe-lines and surge tank, steel pipe-lines, sluice gates, steel surge (tanks) hydraulic control valves and other hydraulic works.      Forty
- (d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above.
  - (i) offices and showrooms      Fifty
  - (ii) containing thermo-electric generating plant      Thirty
  - (iii) Containing hydro-electric generating plant      Thirty-five
  - (iv) temporary erection such as wooden structures.      Five
  - (v) roads other than kucha roads      One hundred
  - (vi) others      Fifty
- (e) Transformers, transformer (Kiosk), sub-stations equipment and other fixed apparatus (including plant foundations)
  - (i) transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over.      Thirty-five
  - (ii) others      Twenty-five
- (f) Switchgear, including cable connections      Twenty
- (ff) lightning arrestors—
  - (i) Station type      Twenty
  - (ii) Pole type      Fifteen
  - (iii) synchronous condensers      Thirty-five
- (g) Batteries      Ten
- (h) (i) Underground Cable including joint boxes and disconnecting boxes.      Forty
- (ii) Cable duct system      Sixty

1	2
(i) Overhead lines, including supports	
(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts.	Thirty-five
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty
(iii) lines on steel or reinforced reinforced concrete supports	Twenty-five
(iv) lines on treated wood supports	Twenty
(j) Motors	Fifteen
(k) self-propelled vehicles	Seven
(l) static machine tools	Twenty
(m) Air conditioning plant—	
(i) Static	Fifteen
(ii) Portable	Seven
(n) (i) Office furniture and fittings	Twenty
(ii) Office equipment	Ten
(iii) internal wiring, including fittings and apparatus	Fifteen
(iv) Street-light fittings	Fifteen
(o) Apparatus let on hire—	
(i) other than motors	Seven
(ii) motors	Twenty
(p) Communication equipment—	
(i) Radio and high frequency carrier system	Fifteen
(ii) Telephone lines and telephones	Twenty
Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this Schedule.	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner.

[No. 25/9/83-D(SEB)]

सां.कां.सि. 255(अ) —केन्द्र सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद एम्. द्वारा यह अधिसूचि करती है कि बोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार मगणित की जाएगी, अर्थात् :—

1. बोर्ड द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना : (क) बोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो अवक्षयण की स्ट्रेट लाइन के अन्तर्गत मगणित की जाती है, अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियों के

संबंध में विहित अवधि तक बोर्ड की बहियों में बढ़े जाने वाली गई और अपास्त कर दी गई राशि को हिसाब में लेने के पश्चात् परिसंपत्तियों को मूल लागत के 90 प्रतिशत द्वारा भाग करके जो राशि आती हो, परन्तु किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में अवक्षयण का अंशदान विहित अवधि की समाप्ति पर अथवा जब बोर्ड द्वारा परिसंपत्ति का उपयोग करना बन्द कर दिया जाता है, जो भी पहले हो, बन्द कर दिया जाएगा।

2. अवक्षयण के सिद्धान्तों की अवधि :—ये सिद्धान्त अप्रैल, 1983 के पहले दिन को शुरू होने वाले और 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अवक्षयण के प्रसारण पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में "विहित अवधि" से अभिप्रेत है—

(क) उस परिसंपत्ति के संबंध में जो बोर्ड को अपने कारोबार में उपयोग के लिए विद्युत (प्रदाय) संशोधित अधिनियम, 1966 (1966 का 30) के लागू होने से पूर्व उपलब्ध हुई थी, अर्थात् इस अधिसूचना की अनुसूची में बताए गए वर्षों की संख्या को उतने वर्षों तक घटा दिया जाए जहां तक वह परिसंपत्ति प्रयोग की गई या प्रयोग करने के योग्य रही थी, इन वर्षों को उस वर्ष के बाद के वर्ष के प्रारम्भ से गिना जाए जिसमें वह परिसंपत्ति बोर्ड का प्राप्त हुई थी तथा इस अधिनियम के लागू किए जाने पर या उसके बाद में समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक, अभिप्रेत है।

(ख) अन्य किसी परिसंपत्ति के संबंध में, वर्षों की संख्या या अवधि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट है।

#### अनुसूची

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
1	2
क. पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि	अनन्त काल
ख. पट्टे के अधीन धारित भूमि—	
(क) भूमि में विनिधान के लिए	पट्टे की अवधि, या पट्टे के समनुदेशन पर शेष अनवसित अवधि
(ख) स्थल की सफाई करने की लागत के लिए	स्थल की सफाई करने की तारीख को पट्टे की शेष अनवसित अवधि।
ग. नई वय की गई आस्तियां—	
(क) जनन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी, जिसके अन्तर्गत संयंत्र आधार भी हैं :	
(1) जल विद्युत	पैंतीस
(2) वाष्प-विद्युत	पच्चीस
(3) डीजल विद्युत	पन्द्रह
(ख) शीतलन टावर और परि संस्थागे जल पद्धति।	तीस
ग) प्रवर्जित संकर्म जो जल विद्युत पद्धति का भाग हैं, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :	
(1) बांध अधिलव मार्ग, एक सो बंधिकाएं और नहरें, प्रवर्जित कंथीट अवनालिकाएं और डाव-बंधिकाएं	एक सो

1	2	1	2
(2) प्रबलित कंक्रीट पाइप लाइनें और चालीस महोमिटिक, इस्पात पाइप लाइन स्लुइस गैस, इस्पात महोमिटिक, इबचालित नियंत्रण वाल्व और अन्य इबचालित संकर्म ।		(न) मीटर	पन्द्रह
(व) स्पाई प्रकृति के भवन और सिविल इजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं :—		(द) स्वतंत्रित यान	सात
(1) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष	पचास	(ठ) स्थैतिक मशीन औजार	बीस
(2) जिसमें ताप विद्युत जनन संयंत्र है	तीस	(ब) वाताशुक्लन संयंत्र :	
(3) जिसमें जल विद्युत जनन संयंत्र	पैंतीस	(1) स्थैतिक	पन्द्रह
हो		(2) सुबाह्य	सात
(4) अस्थाई निर्माण जैसे काष्ठ	पांच	(क) (1) कार्यालय फर्निचर और फिटिंग	बीस
संरचनाएं		(2) कार्यालय उपस्कर	दस
(5) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग	एक सौ	(3) वातनिक तार लगाना जिसके	पन्द्रह
(6) अन्य	पचास	अन्तर्गत फिटिंग और साधन भी	हैं
(ड) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कियोस्क, उप		(4) सड़क प्रकाश फिटिंग	पन्द्रह
स्टेशन उपस्कर और अन्य नियत		(ग) भाड़े पर लिए गए साधन	
साधन (जिसके अन्तर्गत संयंत्र आधार		(1) मोटरों से भिन्न	सात
भी हैं)		(2) मोटरों	बीस
(1) 100 किलोवाट एम्पियर और	पैंतीस	(त) संचार उपस्कर	
उससे अधिक की क्षमता वाले		(1) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति बाहक	पन्द्रह
ट्रांसफार्मर (जिसके अन्तर्गत		पद्धति	
आधार भी हैं)		(2) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	बीस
(2) अन्य	बच्चीस	(थ) पूर्ण प्रयुक्त त्रय की गई आस्तियां	ऐसी युक्तियुक्त अवधि,
(घ) स्विचगियर, जिसके अन्तर्गत केवल		और ऐसी आस्तियां जिसके लिए	जो राज्य सरकार, स्वामी
कनेक्शन भी हैं		इस अनुसूची में अन्यथा उपबन्ध नहीं	द्वारा आस्तियों के अर्जन,
(च) तड़ित प्रगाही :-		किया गया है।	के समय उनके समय
(1) स्टेशन टाइप	बीस		और दशा को ध्यान में
(2) पोल टाइप	पन्द्रह		रखते हुए प्रत्येक मामले
(3) धुल्यकाली संचारित्र	पैंतीस		में व्यवहारित करें ।
(छ) शीटरियां	दस		
(ज) (1) भूमिगत केबल जिनके अन्त-	चालीस		
संधि बाक्स और बियोजन बाक्स			
भी हैं			
(2) केबल डकट प्रणाली	साठ		
(झ) उपरोली लाइनें, जिनके अन्तर्गत टैंक भी हैं :			
(1) 66 किलोवाट से उच्चतर	पैंतीस		
नामीय बोल्डताओं पर प्रचालन			
करने वाले संविरचित इस्पात			
टैंकों पर लाइनें			
(2) 13.2 किलोवाट से उच्चतर	तीस		
किन्तु 66 किलोवाट से अन-			
धिक नामीय बोल्डताओं पर			
प्रचालन करने वाली इस्पात			
टैंकों पर लाइनें			
(3) इस्पात या प्रबलित कंक्रीट टैंको	पच्चीस		
पर लाइनें			
(4) अभिक्रियित काष्ठ टैंको पर	बीस		
लाइनें			

[सं 25/9/82-डी (एस ई बी)]

पी०एम० अहमदाबाद, संयुक्त सचिव

G.S.R. No. 255(E);—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 68 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely:—

1. Providing of depreciation by Board: The Board shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the straight line method of depreciation, that is to say, such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the assets, after taking into account the sum already written off and set-aside in the books of the Board, by the prescribed period in respect of such assets:

Provided that the contribution in respect of any asset to depreciation shall cease at the end of the prescribed period or when the asset ceases to be used by the Board whichever is earlier.

2. Period of application of the principles of depreciation:—These principles shall apply to the charging of depreciation for the accounting year commencing on the 1st of April, 1983, and ending on 31st March, 1984.

Explanation: In this notification, "prescribed period" means—

(a) in relation to an asset which became available to the Board for its use in its business before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1966 (30 of 1966), means the number of years as defined in the schedule to this notification reduced by the number

of years during which such asset was used or capable of being used, such years being computed from the beginning of the year next following that in which that asset became so available to the Board and upto the end of the year ending on or after such commencement.

- (b) relation to any other asset, the number of years or period specified in the said Schedule.

#### SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
1	2
A. Land owned under full title	Infinity
B. Land held under lease—	The period of the lease,
(a) for investment in the land	or the period remaining
(b) for cost of clearing site	unexpired on the assignment of the lease. The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site.
C. Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations including foundations—	
(i) hydro-electric	Thirtyfive
(ii) steam-electric	Twentyfive
(iii) deisel-electric	Fifteen
(b) Cooling towers and circulating water systems.	Thirty
(c) Hydraulic works forming part of a Hydro-electric system, including—	
(i) dams, spillways, weirs, canals reinforced concrete flumes and syphons	One hundred
(ii) reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, Steel surge tanks hydraulic control valves and other hydraulic works.	Forty
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character not mentioned above—	
(i) Offices and showrooms	Fifty
(ii) containing thermo-electric generating plant	Thirty
(iii) containing hydro-electric generating plant	Thirtyfive
(iv) temporary erection such as wooden structures	Five
(v) roads other than kutchha roads	One hundred
(vi) others	Fifty
(e) Transformers, transformer kiosks, sub-station equipment and other fixed apparatus (including plant foundation)—	
(i) transformers (including	Thirtyfive

1	2
foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over	
(ii) others	Twentyfive
(f) Switchgear, including cables connections	Twenty
(ff) Lightning arrestors—	
(i) Station type	Twenty
(ii) Pole type	Fifteen
(iii) synchronous condensers	Thirtyfive
(g) Batteries	Ten
(h) (i) Underground cables including joint boxes and disconnecting boxes	Forty
(ii) Cables duct system	Sixty
(i) Overhead lines including supports	
(i) Lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts	Thirtyfive
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	Thirty
(iii) lines on steel or reinforced concrete supports	Twentyfive
(iv) lines on treated wood supports	Twenty
(j) Meters	Fifteen
(k) self-propelled vehicles	Seven
(l) Static machine tools	Twenty
(m) Air-conditioning plant—	Fifteen
(i) Static	Fifteen
(ii) Portable.	Seven
(n) (i) Office furniture and fittings	Twenty
(ii) Office equipment	Ten
(iii) internal wiring including fittings and apparatus	Fifteen
(iv) street-light fittings	Fifteen
(o) Apparatus let on hire—	
(i) Other than motors	Seven
(ii) motors	Twenty
(p) Communications equipment—	
(i) Radio and high frequency carrier system	Fifteen
(ii) Telephone lines and telephones	Twenty
D. Assets purchased second-hand and assets not otherwise provided for in this schedule.	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner.

[No. 25/9/82—D(SEB)]  
P.M. Ahluwalia, Jt. Secy.